

अर्थशास्त्र तथा वाणिज्य भूगोल-कक्षा-12

कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र-2020-21 में समय से विद्यालयों में पठन-पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरान्त विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत् 30 प्रतिशत पाठ्यक्रम कम किये जाने की अनुशंसा की गयी है:-

खण्ड-क (अर्थशास्त्र)

- (1) विनिमय- मांग तथा पूर्ति अनुसूची तथा वक्र रेखायें।
- (2) सहकारिता- केन्द्रीय सहकारी बैंक।
- (3) वितरण- व्याज

खण्ड-ख (वाणिज्य भूगोल)

- (1) फसलों की उपज तथा उनका व्यापार।
- (5) महत्वपूर्ण निर्माण कला उद्योग और उनका स्थायीकरण।
- (7) बन्दरगाह।
- (8) भारत के विदेशी व्यापार की प्रकृति एवं लक्ष्य।

उपर्युक्त के अनुक्रम में 70 प्रतिशत का पाठ्यक्रम निम्नवत् है-

इसमें 100 अंकों का केवल एक प्रश्न-पत्र समय 3 घण्टे का होगा। न्यूनतम उत्तीर्णांक 33

खण्ड-क (अर्थशास्त्र)

50 अंक

(1) विनिमय-वस्तु विनिमय, क्रय-विक्रय। मुद्रा धातु एवं कागजी मुद्रा। मांग पूर्ति का पारस्परिक सम्बन्ध और मूल्य निर्धारण, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन स्थिति में तथा पूर्ण-अपूर्ण स्पर्धा में मांग और पूर्ति का संतुलन।

25 अंक

(2) सहकारिता-सहकारिता के सिद्धान्त, सहकारी संस्थाओं के प्रकार, प्रदेशीय सहकारी बैंक।

15 अंक

(3) वितरण-लगान, मजदूरी और लाभ।

10

खण्ड-ख (वाणिज्य भूगोल)

50 अंक

भारत के वाणिज्य भूगोल का निम्न स्तर पर विस्तृत अध्ययन-

(1) कृषि साधन, मिट्टी, जलवायु, सिंचाई।

9

(2) वन, वनों का आर्थिक महत्व और उनसे प्राप्त उपज, प्रयोग।

9

(3) खनिज पदार्थ और उसका प्रयोग।

8

(4) जल शक्ति और उनका प्रयोग।

8

(6) कुटीर उद्योग धन्धे।

8

(7) यातायात के साधन।

8

पुस्तकें-कोई भी पुस्तक संस्तुत नहीं की गयी है। संस्था के प्रधान, विषय अध्यापक के परामर्श से पाठ्यक्रम के अनुरूप उपयुक्त पुस्तक का चयन कर लें।